

प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र  
का प्रामाणिक ग्रन्थ

वराहमिहिरप्रणीता  
पञ्चसिद्धान्तिका

'दामोदर'भाषाभाष्यसंवलित

हिन्दी टीकाकार

डॉ. सत्यदेव शर्मा

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन  
वाराणसी

॥ श्रीः॥  
चौखम्बा सुरभारती ग्रन्थमाला

470



वराहमिहिरप्रणीता

# पञ्चसिद्धान्तिका

'दामोदर' भाषाभाष्यसंवलित

भाषाभाष्यकारः

डॉ० सत्यदेव शर्मा



चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन  
वाराणसी

© सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का किसी भी रूप में पुनर्मुद्रण, या किसी भी विधि (जैसे - इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉडिंग या कोई अन्य विधि) से प्रयोग या किसी ऐसे यंत्र में भंडारण, जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो, प्रकाशक की पूर्वलिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

प्रकाशक :

## चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन

(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक)

के-37/117 गोपाल मंदिर लेन, पोस्ट बॉक्स न. 1129

वाराणसी-221001

दूरभाष : (0542) 2335263

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

प्रथम संस्करण : 2009

मूल्य : 500.00

अन्य प्राप्तिस्थान :

## चौखम्बा पब्लिशिंग हाऊस

4697/2, भू-तल (ग्राउण्ड फ्लोर)

गली न. 21-ए, अंसारी रोड़, दरियागंज

नई दिल्ली - 110002

दूरभाष: (011) 32996391, टेलीफैक्स: (011) 23286537

\*

## चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान

38. यू. ए. बंग्लो रोड़, जवाहर नगर,

पोस्ट बॉक्स न. 2113, दिल्ली - 110007

\*

## चौखम्बा विद्याभवन

चौक (बैंक ऑफ बड़ोदा भवन के पीछे)

पोस्ट बॉक्स न. 1069, वाराणसी-221001

मुद्रक

डीलक्स ऑफसेट प्रिंटेर्स, दिल्ली

## विषयानुक्रमणिका

अवतरणिका

प्रथमोऽध्यायः - करणावतारः

1-17

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| ग्रंथ का उद्देश्य                                   | 1  |
| पाँच सिद्धान्त                                      | 2  |
| ग्रंथ में प्रतिपादित विषय-वस्तु                     | 4  |
| रोमक सिद्धान्तानुसार अहर्गण                         | 5  |
| पौलिश सिद्धान्तानुसार अहर्गण                        | 7  |
| सौर तथा रोमक सिद्धान्तानुसार रवि-चन्द्र युग वर्षपति | 10 |
| मासपति                                              | 11 |
| होरापति                                             | 13 |
| वर्षाधिपति आदि                                      | 14 |
| फलादेशार्थ राश्यंशपति आनयन                          | 15 |

द्वितीयोऽध्यायः - वासिष्ठसिद्धान्तः-नक्षत्रादिच्छेदः

18-30

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| स्फुटरवि                            | 18 |
| चन्द्रस्पष्ट                        | 20 |
| नक्षत्र - तिथि                      | 22 |
| दिनमान                              | 24 |
| शङ्कुच्छाया                         | 25 |
| छाया से लग्न तथा लग्न से छाया ज्ञान | 27 |

तृतीयोऽध्यायः - पौलिशसिद्धान्तः

31-54

|                     |    |
|---------------------|----|
| स्फुटरवि            | 31 |
| चन्द्रगति           | 33 |
| मन्दफल              | 35 |
| चर                  | 37 |
| दिनमान              | 37 |
| देशान्तर नाडि ज्ञान | 38 |

(4)

पञ्चसिद्धान्तिका

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| इष्टदेश में अस्तकाल                                            | 40           |
| नक्षत्रानयन                                                    | 40           |
| रवि दैनिक गति                                                  | 41           |
| करण                                                            | 41           |
| व्यतिपातवैधृती                                                 | 43           |
| षडशीतिपुण्यकालः                                                | 46           |
| अयनम्                                                          | 46           |
| संक्रान्तिकाल                                                  | 47           |
| तीन दिन स्पर्श योग                                             | 47           |
| राहुः                                                          | 48           |
| चन्द्र का विक्षेप                                              | 49           |
| भद्रविष्णुमत में दोष                                           | 50           |
| भद्रविष्णु के अन्य दोष                                         | 51           |
| <b>चतुर्थोऽध्यायः - करणाध्यायश्चतुर्थः - त्रिप्रश्नाधिकारः</b> | <b>55-88</b> |
| ज्यानयन                                                        | 55           |
| ज्यामान में अन्य                                               | 58           |
| ज्याखण्डसंबन्धि अन्य                                           | 61           |
| रविचन्द्र की क्रान्ति व शर ज्ञान                               | 63           |
| दिग्ज्ञान                                                      | 65           |
| छाया से अक्षांश ज्ञान                                          | 65           |
| मध्याह्नछाया                                                   | 66           |
| लम्बज्या व दिनव्यास                                            | 67           |
| मेषादि की क्रान्तिज्या तथा वहाँ पर दिन का व्यास                | 68           |
| चरआनयन                                                         | 69           |
| प्रकारान्तर से अक्षज्या लम्बज्या ज्ञान                         | 70           |
| लङ्कोदयराशिमान                                                 | 71           |
| स्वदेश में उदयमान                                              | 72           |
| दिनार्ध अथवा समशङ्कुज्ञान                                      | 73           |
| दिनार्धकाल के खण्डों का ज्ञान                                  | 74           |
| शङ्कु तथा उसकी छाया                                            | 75           |

विषयानुक्रमणिका

(5)

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| गणक की योग्यता                                    | 76             |
| सममण्डल में प्रवेश की परीक्षा                     | 76             |
| अग्रानयन                                          | 76             |
| प्रकारान्तर से अक्षांशानयन                        | 77             |
| इष्टकाल पर छाया का आनयन                           | 77             |
| छाया से इष्टकाल आनयन                              | 80             |
| प्रकारान्तर से इष्टकाल आनयन                       | 83             |
| इष्टकाल से छायाज्ञान                              | 84             |
| चन्द्र छाया आनयन                                  | 84             |
| चन्द्र की क्रान्त्यादि साधन                       | 85             |
| कोटिसाधन                                          | 85             |
| बेध से रविज्ञान                                   | 87             |
| <b>पञ्चमोऽध्यायः - शशिदर्शनम्</b>                 | <b>89-95</b>   |
| प्रतिपदान्त पर चन्द्रदर्शन ज्ञान                  | 89             |
| उत्तरशृङ्गोन्नति फल व शुक्ल भाग साधन              | 91             |
| चन्द्रशृङ्गोन्नति तथा उसका परिलेखन                | 92             |
| चन्द्र का दैनिक उदयास्त साधन                      | 93             |
| <b>षष्ठोऽध्यायः - चन्द्रग्रहणम्</b>               | <b>96-104</b>  |
| सूर्य चन्द्र की समान कलार्ये                      | 96             |
| चन्द्रग्रहण की संभावना                            | 97             |
| ग्रहणस्थितिकाल                                    | 98             |
| विमर्दकालसाधन                                     | 99             |
| निमज्जनकाल, वलनादि तथा स्पर्शमोक्ष दिशा साधन      | 100            |
| ग्रहण का परिलेखन                                  | 103            |
| रविचन्द्र ग्रहण का भेद                            | 104            |
| <b>सप्तमोऽध्यायः - पौलिशसिद्धान्ते रविग्रहणम्</b> | <b>105-108</b> |
| लम्बन ज्ञान                                       | 105            |
| नति                                               | 105            |
| ग्रहण कर्म                                        | 107            |

(6)

पञ्चसिद्धान्तिका

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| अष्टमोऽध्यायः - रोमक सिद्धान्तेऽर्क ग्रहणम्  | 109-118 |
| रविस्फुटीकरण                                 | 109     |
| स्पष्टचन्द्र                                 | 110     |
| रवि-चन्द्र की गतिसाधन                        | 112     |
| राहुसाधन                                     | 112     |
| लम्बन ज्ञान                                  | 113     |
| दृक्क्षेप आनयन                               | 113     |
| नतिसाधन तथा बिम्बमानसाधन                     | 115     |
| रवि-चन्द्र का स्फुट बिम्बमानायन              | 117     |
| स्थितिसाधन                                   | 117     |
| ग्रासमान व परिलेखन                           | 118     |
| नवमोऽध्यायः - सूर्यसिद्धान्ते - सूर्यग्रहणम् | 119-132 |
| मध्यमरविसाधन                                 | 119     |
| चन्द्रसाधन                                   | 120     |
| चन्द्रोच्चानयन                               | 121     |
| संस्कार                                      | 121     |
| राहुसाधनम्                                   | 123     |
| सूर्यचन्द्र का फल तथा भुजान्तर               | 124     |
| देशान्तर संस्कार                             | 126     |
| चालनार्थ मध्यम गति                           | 126     |
| चन्द्रोच्च एवं केन्द्र भुक्ति                | 127     |
| रविशशि की स्फुट गति                          | 127     |
| सूर्य चन्द्र की कक्षा स्फुटीकरण              | 128     |
| चन्द्र सूर्य के बिम्बमान                     | 129     |
| मध्यज्या व मध्यलम्ब साधन                     | 130     |
| रविदृक्क्षेप तथा लम्बन                       | 130     |
| शङ्कुसाधन                                    | 131     |
| लम्बितपर्वान्तज्ञान                          | 131     |
| नति तथा स्पष्टनति ज्ञान                      | 132     |
| स्थितिसाधन                                   | 132     |

विषयानुक्रमिका

(7)

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| दशमोऽध्यायः - सूर्यसिद्धान्ते - चन्द्र ग्रहणम्      | 134-139 |
| पूर्व(अध्याय 9 में) प्राप्त अवयवों से भूभा आनयन     | 134     |
| ग्रहण स्थितिज्ञान                                   | 136     |
| इष्टकालिक ग्रास ज्ञान                               | 137     |
| विमर्दकालज्ञान                                      | 138     |
| एकादशोऽध्यायः - चन्द्रग्रहणमनुवर्णनम्               | 140-143 |
| अपमण्डलादि का अङ्कन                                 | 140     |
| स्पर्शमोक्ष बिन्दुओं का अङ्कन                       | 141     |
| अङ्गुल लिप्ता ज्ञान                                 | 142     |
| द्वादशोऽध्यायः - पैतामहसिद्धान्तः                   | 144-151 |
| अहर्गण ज्ञान                                        | 144     |
| तिथि तथा रवि-चन्द्र के नक्षत्रानयन                  | 145     |
| पूर्वविद्धा-परविद्धा तिथि तथा व्यतिपात साधन         | 146     |
| दिनमान ज्ञान                                        | 148     |
| त्रयोदशोऽध्यायः - त्रैलोक्यसंस्थानम्                | 152-169 |
| भूगोलवर्णन                                          | 152     |
| देव तथा असुरों की स्थिति                            | 153     |
| भूभ्रमण कथन का खण्डन                                | 153     |
| अर्हत्मत तथा उसका खण्डन                             | 154     |
| भचक्रव्यवस्था                                       | 155     |
| संहिता ग्रंथोक्त देवताओं के दिन रात्री मान का खण्डन | 156     |
| भूमि पर प्रतिअंश रेखांश की योजन दूरीमान             | 157     |
| भूमि की परिधि का परिमाण तथा मेरुस्थान               | 158     |
| विशेष बात                                           | 159     |
| दिनमान के लिए विशेष                                 | 160     |
| देश विशेष में सदा दृश्यादृश्य राशियाँ               | 161     |
| ध्रुव की स्थिति                                     | 162     |
| मेरु स्थान के लिए विशेष                             | 163     |
| ध्रुव वेध                                           | 164     |
| चन्द्र का सित-असित ज्ञान                            | 166     |

|     |                                                            |                |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------|
| (8) | पञ्चसिद्धान्तिका                                           |                |
|     | ग्रहों की कक्षा क्रम                                       | 167            |
|     | मासाधिपति आदि को शीघ्र स्मरणार्थ युक्ति                    | 168            |
|     | <b>चतुर्दशोऽध्यायः - छेद्यकयन्त्राणि</b>                   | <b>170-190</b> |
|     | यन्त्र के द्वारा चरज्ञान                                   | 170            |
|     | इष्ट नाडी से छाया तथा छाया से इष्ट नाडी का ज्ञान           | 172            |
|     | निरक्षोदय ज्ञान                                            | 173            |
|     | मध्याह्न छाया से अक्षांश ज्ञान                             | 174            |
|     | वेध से रवि ज्ञान                                           | 175            |
|     | वेध से तिथि ज्ञान                                          | 176            |
|     | चन्द्रस्थान ज्ञान                                          | 177            |
|     | भाभ्रम रेखाज्ञान                                           | 177            |
|     | क्षितिजादि के लक्षण                                        | 178            |
|     | अर्धकपाल यंत्र के द्वारा वेध से लग्न तथा इष्ट काल का ज्ञान | 180            |
|     | चक्रयन्त्र के द्वारा वेध से रवि का मध्याह्न नतांश ज्ञान    | 181            |
|     | वेध के द्वारा प्रकारान्तर से इष्टकाल का ज्ञान              | 182            |
|     | दिन की वृद्धि तथा हास का कारण                              | 183            |
|     | यन्त्रादि बनाने की मूल आवश्यकतायें तथा                     |                |
|     | यन्त्रों की युक्ति को बताने के पात्र                       | 185            |
|     | घटी यन्त्र                                                 | 186            |
|     | तारा तथा चन्द्र का योगकाल                                  | 187            |
|     | युति के लिए नक्षत्र के कौन सा चिन्ह योगतारा का वेध करे     | 187            |
|     | अगस्यतारा का उदयकाल                                        | 188            |
|     | <b>पञ्चदशोऽध्यायः - ज्योतिषोपनिषत्</b>                     | <b>191-200</b> |
|     | स्थान विशेष पर ग्रहणादि संबंधी विशेष                       | 191            |
|     | चन्द्रलोक तथा मैरू के लिए विशेष                            | 192            |
|     | सूर्यग्रहण का कारण तथा विशेष बात                           | 193            |
|     | मेरू स्थान दिशादि ज्ञान                                    | 195            |
|     | मेरू के लिए पुनः विशेष                                     | 196            |
|     | दिवसारम्भ के संबंध में अनेक मत                             | 197            |
|     | विशेष बात                                                  | 198            |

|  |                                                             |                |
|--|-------------------------------------------------------------|----------------|
|  | विषयानुक्रमणिका                                             | (9)            |
|  | युग का आदिकाल                                               | 199            |
|  | देशान्तर के लिए विशेष                                       | 199            |
|  | दिनाधिपति के संबंध में मतान्तर                              | 199            |
|  | होरापति के लिए विशेष                                        | 200            |
|  | सिद्धान्त                                                   | 200            |
|  | <b>षोडशोऽध्यायः - सूर्यसिद्धान्ते मध्यगतिः</b>              | <b>201-205</b> |
|  | बुध, शुक्र, भौम, गुरु तथा शनि मध्यम                         | 201            |
|  | भौमादि मध्य के द्वितीय खण्ड से उत्पन्न संस्कार              | 202            |
|  | भौमादि के क्षेपक                                            | 203            |
|  | बुध शीघ्रोच्च                                               | 203            |
|  | शुक्र शीघ्रोच्च                                             | 204            |
|  | बुध-शुक्र के शीघ्रोच्चों के क्षेपक                          | 204            |
|  | भौमादि के बीजकर्म                                           | 204            |
|  | <b>सप्तदशोऽध्यायः - ताराग्रहस्फुटीकरणम् - सौरसिद्धान्तः</b> | <b>206-212</b> |
|  | ग्रह मन्द परिधी तथा मन्दोच्चांश                             | 206            |
|  | भौमादि ग्रहों के शीघ्रपरिधी                                 | 207            |
|  | भुजकोटीज्ञान                                                | 207            |
|  | शीघ्रफलज्ञान                                                | 208            |
|  | मन्दफलमाह                                                   | 208            |
|  | स्फुटग्रह साधन                                              | 209            |
|  | बुध शुक्र के लिए विशेष संस्कार                              | 209            |
|  | उदय कालांश                                                  | 209            |
|  | भौमादि के शरानयन                                            | 211            |
|  | <b>अष्टादशोऽध्यायः - पौलिशसिद्धान्ते ताराग्रहाः</b>         | <b>213-249</b> |
|  | वसिष्ठमत से शुक्रचार                                        | 213            |
|  | गति                                                         | 214            |
|  | गुरु उदयादि                                                 | 216            |
|  | शनिचार                                                      | 220            |
|  | भौमचार                                                      | 223            |
|  | बुधस्यचारादि                                                | 229            |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| मेषराशि में गति           | 231 |
| वृषभ राशि में गति         | 232 |
| मिथुन में गति             | 232 |
| कर्क में गति              | 233 |
| सिंह राशि में गति         | 233 |
| कन्या में गति             | 234 |
| तुला में गति              | 235 |
| वृश्चिक में गति           | 235 |
| धनुराशि में गति           | 236 |
| मकर राशि में गति          | 236 |
| कुंभराशि में गति          | 237 |
| मीन राशि में गति          | 237 |
| बुध की गति का निर्णय      | 238 |
| अक्षदृक्कर्म              | 238 |
| कालांश तथा उनका स्फुटीकरण | 239 |
| ग्रंथोपसंहार              | 240 |
| उदयास्तादि के लिए विशेष   | 242 |
| कुजोदयादिक                | 243 |
| बुध का उदयादि             | 244 |
| गुरुउदयादि                | 245 |
| शुक्रोदयादि               | 246 |
| शनि के उदयादि             | 248 |
| परिशिष्ट-1                | 250 |
| परिशिष्ट-2                | 255 |
| श्लोकानुक्रमणिका          | 266 |
| शुद्धि पत्र               | 280 |

## अवतरणिका

भारत के महान खगोलशास्त्रियों में से एक आर्यभट ने प्रथम बार पाँचवी शताब्दी में भारतीय खगोल शास्त्र के ज्ञान में से कुछ सांकेतिक ज्ञान अपनी लिखित पुस्तक 'आर्यभटीय' में दिया। उसी का अनुसरण करते हुए वराहमिहिराचार्य ने इस परम्परा को आगे बढ़ाया तथा इस पञ्चसिद्धान्तिका ग्रंथ की रचना की। आर्यभट ने अपने ग्रंथ में जो कुछ लिखा उसमें उन्होंने यह उद्घाटित नहीं किया कि उनके द्वारा उद्धृत खगोल के सिद्धान्त किन पूर्ववर्ति आचार्यों द्वारा बताये गये थे तथा उनमें उनके स्वयं के प्रतिपादित सिद्धान्त व सूत्र कौन से हैं? इस कमी को वराहमिहिराचार्य ने पूरा किया तथा यह बताने का प्रयास किया कि भारत में प्रसारित हुए आर्यभटोक्त शास्त्र ज्ञान के अतिरिक्त, कौन सा खगोल का अन्य ज्ञान भण्डार आचार्यों द्वारा पूर्व में प्रतिपादित किया गया था? उनमें से कुछ का उल्लेख ग्रंथ में किया। आर्यभट की भांति ही वराहमिहिर ने भी कहीं भी, अन्तिम भाग के अतिरिक्त, स्वकृत अथवा स्वप्रतिपादित सिद्धान्त अथवा सूत्र की चर्चा नहीं की लेकिन मुख्य रूप से प्रयुक्त पाँच सिद्धान्तों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया। आचार्य ने जिन परिभाषाओं तथा गणनाओं व सूत्रों को उनके प्रवर्तक आचार्य का नाम नहीं दिया है वे सम्भवतः आधार भूत अवयव होने के कारण किसी आचार्य को उनका प्रवर्तक कहना संभव नहीं था जैसे त्रिप्रश्नाधिकारोक्त विषय सामग्री, अध्याय-13-14-15 में उक्त विषय सामग्री आदि।

आचार्य वराहमिहिर द्वारा रचित इस ग्रंथ तथा उन्हीं के द्वारा रचे गए 'बृहद्संहिता' ग्रंथ में, वेदाङ्गज्योतिष पूर्व काल से लेकर उनके काल तक फले-फूले खगोल तथा उससे संबन्धित अन्य विषयों संबन्धी ज्योतिष ज्ञान को बहुत सीमा तक लिपिबद्ध किया गया है, शेष कुछ कमी आर्यभट के आर्यभटीय-ग्रंथ के द्वारा पूरी होती है।

आचार्य द्वारा लिखा गया पं. सि. ग्रंथ शायद इसलिए भी अधिक प्रचलित तथा प्रतिष्ठित नहीं हो सका क्यों कि यह भारतीय ज्योतिष-खगोल शास्त्र का एक प्रकार से इतिहास रूप में था, लेकिन गणनाओं के फल शुद्ध नहीं थे। आर्यभट के ग्रंथ अधिक क्रमबद्ध तथा शुद्ध फल देने वाले थे। फिर